

जीवन मे हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से परेशान है । हर परेशान व्यक्ति उपाय चाहता है । हर व्यक्ति अपना जीवन सरलता से गुजारना चाहता है । यदि प्रभु ने समस्याएँ दी हैं तो उनके समाधान भी दिये हैं वो बात अलग है कि लोग अपने अपने तरीके से समस्याओं पर विजय पाते हैं । कुछ लोगों के अनुरोध पर **शत्रुओं पर विजय** के लिए एक विशेष लेख प्रस्तुत है ।

यदि आपको कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है । आपसे कोई शत्रुता रखता है । आपके जीवन मे तरक्की के मार्ग मे कोई ऐसा व्यक्ति आ जाये जो आपकी तरक्की को रोक दे । यदि कोई शत्रु आपसे अधिक प्रभावशाली है और आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते तो **माँ बगलामुखी** की शरण मे जाइए । बगलामुखी के इस मंत्र से आपके विरोधी आपके समक्ष कुछ नहीं बोल पाएंगे । इस मंत्र के प्रयोग से आपके शत्रु पर जादू जैसा असर होगा । यदि किसी से लंबा वाद विवाद चल रहा है और आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो बगलामुखी का यह मंत्र प्रयोग करें । आप पाएंगे कि सब कुछ आपके पक्ष मे होने लगा है ।

यदि मुकद्दमा या वाद विवाद मे आपका पक्ष कमजोर है तो अपने पक्ष को सबल बनाने के लिए आप **बगलामुखी मंत्र का प्रयोग** कर के देखें । यदि आप सत्य की राह पर हैं तो विजय आपको जरूर मिलेगी ।

बगलामुखी मंत्र तभी काम करता है जब शत्रु अन्याय कर रहा हो । यदि आप किसी के साथ कुछ गलत करना चाहते हैं तो सावधान, यह मंत्र आपको लाभ की बजाय हानि पहुंचा सकता है ।

बगलामुखी मंत्र

ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय स्तंभय ।

जीवहां कीलय कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा ॥

इस मंत्र मे जहां सर्व दुष्टाना लिखा है वहाँ अपने शत्रु का नाम भी लिया जा सकता है । इस मंत्र मे सभी दुष्टों के वाणी मुख और अंगों का स्तंभन अर्थात निष्क्रिय करने के लिए माँ बगलामुखी से प्रार्थना की गई है ।

बगलामुखी मंत्र की विधि

इस मंत्र को प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम यदि **बगलामुखी देवी का सुंदर चित्र** मिल जाये तो बहुत अच्छा अन्यथा किसी भी देवी को **बगलामुखी देवी का प्रतीक** मानकर नित्य स्नानोपरांत शुद्ध चित्त

से पीले आसन पर बैठ जाँँ । माला रुद्राक्ष की हो तो सर्वश्रेष्ठ अन्यथा तुलसी की माला भी प्रयोग मे लायी जा सकती है । मंत्र पढते वक्त माता बगलामुखी से शत्रु पर विजय की प्रार्थना करते रहें । एक माला का जप एक दिन मे एक बार करें और जब शत्रु के सम्मुख जाँँ तब मन ही मन इस मंत्र का जाप करते रहें । चमत्कारिक ढंग से आप अपने को हावी पाएँगे ।